



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 28--जून 3, 2005 (ज्येष्ठ 7, 1927)
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28—JUNE 3, 2005 (JYAISTHA 7, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2 [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अपासनों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली दिनांक 17 मई 2005

सं० आर०एस०/6(ii)/2005/24-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय उप-सभापति, श्री के० रहमान खान, के वैयक्तिक स्टाफ में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में सह-पदावसान के आधार पर नियुक्त किए गए श्री राकेश सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कर्नाटक : 1989) को सेवाएं 17 मई, 2005 के अपराह्न से समाप्त होती हैं और उनकी सेवाओं को वापस कर्नाटक सरकार के सुधुर्द किया जाता है।

प्र० रं० गृहाराय निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 16 मई 2005

सं० 5/6/1/2005-I---राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के हउसे उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्रीमती एम० सत्यवती, भारतीय प्रशासन सेवा (एजोएमयू 82) को नियंत्रक (प्रशासन) के

1-82 GI/2005

पद पर अप्रैल 29, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2005

सं० ए-19(694)/94-प्रशा० II—आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 5-4-2005 के का० ज्ञा० सं० 13019/6/2004-आई ई एन के तहत गया संसूचित आई ई एस के ग्रेड-III अधिकारी और योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री एन० शरण को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में उप सचिव के रूप में केन्द्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति हेतु चयन होने के परिणामस्वरूप उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में रिपोर्ट करने हेतु दिनांक 15-4-2005 को पूर्वाह्न से कार्य-भार मुक्त किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 29 अप्रैल 2005

गृह मंत्रालय

सं० एफ-6(1891)/2003-प्रशा० I-अधिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, श्री राजीव रत्न शाह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (यूपी:67) सचिव, योजना आयोग, दिनांक 30-4-05 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्ति किए जाते हैं।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 2 मई 2005

सं० एफ-6(1891)/2003-प्रशा० I-कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं० 7/3/2005-ईओ(एसएम-I) दिनांक 30 अप्रैल, 2005 के तहत सूचित एसीसी के अनुमोदन के अनुसरण में श्री राजीव रत्न शाह ने दिनांक 1 मई, 2005 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में सदस्य-सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 2 मई 2005

सं० ए-12026/3/99-प्रशा० II-राष्ट्रपति, योजना आयोग के श्री पी० नारायणन, एक नियमित अनुसंधान सहायक (आर्थिक) को योजना आयोग में 6500-200-10500 रुपए के वेतनमान में आर्थिक अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर नियमित पदोन्नति आधार पर दिनांक 1-5-2005 (पूर्वाह्न) से अथवा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं० ए-19(759)/97-प्रशा० II-राष्ट्रपति, योजना आयोग में कार्यरत श्री के० के० समाजदार आईईएस के ग्रेड III अधिकारी और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के साथ पठित एफ आर 56 (के) के अंतर्गत दिनांक 7-5-2005 की (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति देने की अनुमति प्रदान करते हैं।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6-मई 2005

सं० ए-12022/1/2004-प्रशा० 4-राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा की अधिकारी श्रीमती सुरभी जैन, ग्रेड-IV (जेटीएस) को कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ में 8 अप्रैल, 2005 के पूर्वाह्न से रु० 8000-275-13,500/- के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

रमजीत सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 मई 2005

सं० 14016/39/2002-यू०टी०एस०-II-राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा नागर हवेली सिविल सेवा (दानिक्स) के प्रविष्टि ग्रेड अधिकारी श्री पी० सी० चतुर्वेदी को 1 जनवरी, 1999 से 10,000-325-15,200 रु० के वेतनमान में सेवा के चयन ग्रेड में नियुक्त करते हैं। पदोन्नति होने पर उनका नाम गृह मंत्रालय की दिनांक 11 अप्रैल 2005 की अधिसूचना सं० 14016/39/2002-यू०टी०एस० II में श्री ए० हमजा के नाम के नीचे और श्री वी० के० एस० चौहान के नाम के ऊपर क्रम सं० 19-क पर लिखा जाएगा।

राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

एन० जे० थामस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2005

सं० ए-31014/7/2001-प्रशा०-1-प्रो एस० टी० वेंकटचलापति, दिनांक 1 जुलाई 1999 से अनुभाग अधिकारी (परिवोक्षाधोन) नियुक्त हुए थे एवं दो साल के लिए परिवोक्षा पर रखे गए थे। परिवोक्षा की अवधि एतद्वारा दिनांक 1 जुलाई 2001 से छः माह के लिए आगे बढ़ाई जाती है और उन्होंने परिवोक्षा को बढ़ाई गई अवधि को सफलतापूर्वक दिनांक 31-12-2001 को पूरा कर लिया है।

2. राष्ट्रपति अब श्री एस० टी० वेंकटचलापति को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के गृह मंत्रालय संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में दिनांक 1 जनवरी 2002 से स्थायी करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

कामिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2005

सं० 24012/21/2002-स्था० (ख)-राष्ट्रपति, श्री अमोल एस० कामत, भारतीय राजस्व सेवा (93) को अंगलूर स्थित कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में दिनांक 4 अप्रैल 2005 के अपराह्न से 4 वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

श्रीमती शोभा ठाकुर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2005

सं० 14012/18/2004-अ०भा०से०-III-राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र०सं०	नाम	वर्ष	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्री हरित शुक्ला	1999	20-9-2001
2.	श्री अजय भादु	1999	20-9-2001

जी० सी० पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2005

सं० ए-32013/5/2005-प्रशा०-I-राष्ट्रपति, श्री आई० एम० जी० खान, भारतीय डाक सेवा (70) की दिनांक 25 अप्रैल, 2005 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी० के० वेलकुट्टी, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2005

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) स्थानां

सं० 2005 का 06 (फा० सं० क-38012/34/2004 प्रशा० II)-राष्ट्रपति, श्री एम० ए० ए० आर० अन्तुले, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात) -दिल्ली के द्वारा प्रस्तुत सरकारी सेवा सन्तुष्टि "क" से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को सी० सी० ए० (पेंशन) निर्यातवर्ग 1972 के नियम 48 के तहत स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 08 अप्रैल 2005

सं० 44 (फा० सं० ए-19011/12/2005-प्रशा० I)-भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा : 1968 के श्री बरजिन्देर सिंह की दिनांक 06.04.2005 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश तक, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में पदेन विशेष सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

सं० 45 (फा० सं० ए०-19011/13/2005-प्रशा०-I)-

भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा : 1968 के श्री के० रंगभाष्यम को दिनांक 06-04-2005 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश तक, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में पदेन अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

सं० 46 (फा० सं० ए०-19011/14/2005-प्रशा०-I)-

भारत के राष्ट्रपति, सुश्री केशवरी सुब्रमणियम, भारतीय राजस्व सेवा (सी० शु० एवं के० उ० शु०) : 80 को दिनांक 04-4-2005 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

दिनांक 26 अप्रैल 2005

सं० 50 (फा० सं० ए०-19013/7/2005-प्रशा०-I)-भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (सी० शु० एवं के० उ० शु०) के श्री बी० के० चक्रवर्ती को दिनांक 21-04-2005 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए और अगले आदेश तक, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में तकनीकी अधिकारों के रूप में नियुक्त करते हैं। उनको उक्त अधिकारों (टी० आर० यू०) के रूप में तैनात किया जाता है।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

दिनांक 28 अप्रैल 2005

सं० 51 (फा० सं० ए०-19014/6/91-प्रशा०-I)-गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 5 अप्रैल 2005 के कार्यालय ज्ञान सं० 5/7/2005-रा० भा० (सेवा) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा की अधिकारी श्रीमती श्रद्धा बंनर्जी को दिनांक 6-4-2005 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश तक 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में राजस्व विभाग में उच्च निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

सं० 52 (फा० सं० ए०-19013/8/2005-प्रशा० I)-

भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (सी० शु० एवं के० उ० शु०) के अधिकारी श्री ज्ञान सरदार को दिनांक 21-04-2005 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए और अगले आदेश तक, राजस्व विभाग के केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (के०आ०आ०ब्यू०) में वरिष्ठ तकनीकी

अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। उनको वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के रूप में तैनात किया जाता है।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2005

सं० 5/2005—राष्ट्रपति, गुजरात उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर० के० अविचंदानी को 14 अप्रैल, 2005 के पूर्वाह्न से सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

सुकुल सिंघल, निदेशक

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 2005

एफ०सं० 3/29/2003-मुद्रा-III—राष्ट्रपति, श्री के० एम० कुंजन, सहायक निदेशक/कार्यकारी, आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड में 10,000-325-15200 रु० के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 2 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न से 3 वर्षों की अवधि के लिए सतर्कता अधिकारी (समूह 'क'-राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

दिनांक 4 मई, 2005

एफ०सं० 1/34/96-करेंसी-III—राष्ट्रपति श्री आर०जी० बोधते, वेतन तथा लेबा अधिकारी, करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड की 20 अप्रैल, 2005 को पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर 10,000—15,200 रु० के वेतनमान (समूह "क" राजपत्रित) में करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करता है।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2005

सं० ए० 12026/3/2005-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अधिकारी श्री अशोक थामस को दिनांक 6 मई, 2005 के पूर्वाह्न से एवं अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 10000-325-15200/- रु० के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित अनुबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी :—

क) तदर्थ नियुक्ति इस ग्रेड में बने रहने या चयन सूचि में नियमित नियुक्ति के लिए शामिल किए जाने अथवा ग्रेड-1 में वरिष्ठता के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी।

ख) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 11 मई, 2005

सं० पीएफपीए(136)/प्रशा०-1—राष्ट्रपति, भारतीय लागत वेडा सेवा के अधिकारी, वर्तमान में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत) श्री जुगल किशोर पुरी को दिनांक 05-05-2005 (आराह्न) से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 26,000/- रु० (नियत) के वेतनमान में मुख्य सलाहकार (लागत) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

महालेखा नियंत्रक

नई दिल्ली-110003 दिनांक 11 मई, 2005

सं० ए-12025/1/2003/एम०एफ०सी०जी०ए०/ग्रुप ए/767-76 वर्ष 2003 में संयोजित सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2003 के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति जो निम्नलिखित उम्मीदवार को भारतीय सिविल सेवा (ग्रुप ए) में परीक्षाआधेन के रूप में नीचे दर्शाई गई तारीख से नियुक्त करते हैं।

क्र० सं० नाम	नियुक्ति की तारीख
1. श्री सुभाष चन्द्र	10-01-2005

धारितो पांडा, उप महालेखा नियंत्रक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2005

सं० ए-35020/1/2002-स्था०-1 (संवर्ग)--राष्ट्रपति, श्री आर० एम० निखा, भा० प्र० सं० (असन : 1987) को दिनांक 28 अप्रैल, 2005 को पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रातिनियुक्ति पर 14,300--18,300/- रुपये के वेतनमान में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस० दास, अवर सचिव,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2005

सं० ए-19011/1/2005-स्थापना:- राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15-2-2005 के आदेश सं० 21/40/2004-सीएस-1(बी) के अनुसार श्री एस० के० चिट-कारा को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में 18-2-2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर ग्रे- (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित होने के लिए ग्रेड में अनिश्चित रूप से बने रहने या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति इसके लिए बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

तेजवीर सिंह, अवर सचिव

सं० ए-19011/2/2005-स्थापना:- राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15-2-2005 के आदेश सं० 21/40/2004-सीएस-I (बी) के अनुसार श्री बाल कृष्ण दत्ता को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 10,000-325 15,200/- रु० के वेतनमान में 23-2-2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित होने के लिए ग्रेड में अनिश्चित रूप से बने रहने या ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति इसके लिए बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

तेजवीर सिंह, अवर सचिव

दिनांक 18 फरवरी 2005

सं० ए-19011/2/2002-स्थापना:- केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि के पूरा होने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक श्री तरुण श्रीधर, भा० प्र० से० (हि० प्र० 84) की सेवाएं 7-3-2005 (अपराह्न) से हिमाचल प्रदेश सरकार के सुपुर्द की जाती हैं।

तेजवीर सिंह, अवर सचिव

दिनांक 10 मार्च 2005

सं० ए-12011/17/2004-स्थापना:- राष्ट्रपति, श्री अजय त्यागी, भा० प्र० से० (हि० प्र० 84) को, 7-3-2005 से उनकी 5 वर्ष अर्थात् 12-8-2006 तक की केन्द्रीय

प्रतिनियुक्ति अवधि की शेष अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, दोनों में जो भी पहले हो, के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री अजय त्यागी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में पूर्वोक्त तारीख से संयुक्त सचिव का पदभार संभाल लिया है।

तेजवीर सिंह, अवर सचिव

दिनांक 23 मार्च 2005

सं० ए-19011/5/2005-स्थापना:- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-2-2005 के का०ज्ञा० सं० 21/9/2004-सीएस 1(पार्ट) के अनुकरण में राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के संवर्ग में धारित केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सहायक, श्री सुरेश कुमार नायक की नियुक्ति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में रु० 6500-200-10500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सीएसएस के अनुभाग अधिकारों के रूप में 22-3-2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इससे उनको उक्त ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने का अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित होने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

तेजवीर सिंह, अवर सचिव

दिनांक 4 अप्रैल 2005

सं० ए-20011/15/2004-स्थापना:- राष्ट्रपति, श्री विवेक कुमार देवांगन, भा० प्र० से० (महा० : 93) को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 4-4-2005 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

तेजवीर सिंह, अवर सचिव

दिनांक 8 अप्रैल 2005

सं० ए-12011/1/2005-स्थापना:- राष्ट्रपति, श्री रवि कपूर, भा० प्र० से० (एएम : 86) को इस मंत्रालय में पांच वर्ष की उनकी केन्द्रीय कार्यावधि की शेष अवधि अर्थात् पद का कार्यभार लेने की तारीख से 13-2-2008 तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी घटना पहले घटित हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

तेजवीर सिंह, अवर सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2005

सं पी०-II/576/84-स्था०--राष्ट्रपति, श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग, अनुभाग अधिकारी (सी एस एस) खान मंत्रालय को, कामिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं० 21/40/2004-सी एस I (वी) दिनांक 15 फरवरी, 2005 द्वारा अवर सचिव के पद पर पदोन्नत होने पर 17 फरवरी, 2005 पूर्वाह्न से कार्यभार मुक्त करते हैं।

टी० एस भाटिया, अवर सचिव

दिनांक 16 मार्च 2005

सं० 3(3)/2005-स्था०--राष्ट्रपति, श्री सुखवीर चौधरी, आई०आर०एस० (आई टी : 94) को उप सचिव के स्तर पर 27 नवम्बर, 2004 पूर्वाह्न से खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। उनकी यह नियुक्ति, खान मंत्री के निजी सचिव के रूप में काम करना बंद करने या अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक होगी।

टी० एस० भाटिया, अवर सचिव

दिनांक 25 अप्रैल 2005

सं० पी-1/403/2003-स्था०--राष्ट्रपति, श्री सी० डी० आढ़ा, आई०ए०एस० (ए० पी० : 68) को दिनांक 25 अप्रैल 2005 के पूर्वाह्न से खान मंत्रालय में सचिव के पद से कार्यमुक्त करते हैं ताकि वे संविमंडल संबंधी नियुक्ति समिति सचिवालय, कामिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 अप्रैल 2005 के पत्र सं० 7/2/2005-ई ओ (एस एम-1) के द्वारा उन्हें सचिव के पद और वेतन में सौंपे गए सलाहकार, योजना आयोग का कार्यभार ग्रहण कर सकें।

टी० एस० भाटिया, अवर सचिव

सं० 3/7/2005-स्था०--संविमंडल संबंधी नियुक्ति समिति सचिवालय, कामिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 अप्रैल 2005 के पत्र सं० 7/2/2005-ई ओ (एस एम-1) के अनुसरण में श्री पी० सी० पारख, आई०ए०एस० (ए० पी० : 69) सचिव, कोयला मंत्रालय दिनांक 25 अप्रैल 2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक सचिव, खान मंत्रालय के रूप में सम्पूर्ण अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करेंगे।

टी० एस० भाटिया, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 मई 2005

सं० ए-32013/2/95-प्रशासन--इस विभाग की दिनांक 1 नवम्बर 2004 को समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति, लोक उद्यम विभाग में कार्यरत श्री मदन मोहन सहायक निदेशक की उरी कार्यालय में तदर्थ आधार पर उप निदेशक के रूप में नियुक्ति को अवधि को दिनांक 28-4-2005 (पूर्वाह्न) से 6 महीने की अवधि के लिए अथवा इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

जी० एस० बोथ्याल, निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 3 मई 2005

सं० ए-12014/01/2003-प्रशा०--राष्ट्रपति, संविमंडल सचिवालय में सहायक अनुसंधान अधिकारी (एस एंड टी), श्री सतीश वैरागी को 29.04.2005 के पूर्वाह्न से एक वर्ष के लिए अथवा पद के नियमित रूप से भरे जाने तक, जो भी पहले हो, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक 'सी' के पद पर पूर्णतया प्रतिनिधित्व आधार पर नियुक्त करते हैं।

गुरमीत सिंह, अवर सचिव

सं० ए-12014/01/2003-प्रशा० I--राष्ट्रपति, महा-नियंत्रक पेटेंट्स, डिजाइन और व्यापार चिह्न कार्यालय, मुम्बई में पेटेंट्स एवं डिजाइन निरीक्षक श्री संजय केशरवानी को 13-4-2005 के पूर्वाह्न से एक वर्ष के लिए अथवा पद के नियमित रूप से भरे जाने तक, जो भी पहले हो, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक 'सी' के पद पर पूर्णतया प्रतिनिधित्व आधार पर नियुक्त करते हैं।

गुरमीत सिंह, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 मई 2005

सं० जंड 20018/1/2000-सी पी ए (.)--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय को दिनांक 14 जनवरी, 2002 को समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री विश्वनाथ आनन्द का कार्यकाल राष्ट्रीय पर्यावरण अपोलॉय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में आगे छः माह को और अवधि के लिए

12-2005 से 31-7-2005 तक सूर्य बढ़ाते हैं। दिनांक 14 जनवरी, 2002 को अधिसूचना को अन्य गर्ते बड़ी बनी रहेगी।

के० वी० मैथ्यू, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 2005

शुद्धि-पत्र

सं० 2-1/2004-एन० आर० एम०-इस कार्यालय की दिनांक 07-06-2004 अधिसूचना सं० 2-1/2004-एन आर एम-III में आंशिक संशोधन करते हुए डा० एस० के० रुद्रा, सहायक मृदा रसायनज्ञ, कोलकाता क्षेत्रीय केन्द्र, अखिल भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग संरक्षण का उसी संगठन में स्थानापन्न प्रोन्नति के आधार पर रु० 10,000-325-15,200 के वेतनमान में मृदा सर्वेक्षण अधिकारी (जी सी एस ग्रुप 'क') के पद पर नियुक्ति की तारीख 19 अप्रैल, 2004 (पूर्वाह्न) के स्थान पर 13 अप्रैल, 2004 (पूर्वाह्न) किया जाता है।

एम० पी० थॉमस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2005

सं० 12022/4/2005-स्था०-1-राष्ट्रपति कृषि एवं सहकारिता विभाग के संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को 20-4-2005 के पूर्वाह्न से अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए या चयन सूची के अधिकारी उपलब्ध होने तक, इसमें से जो पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (निजी सचिव) के ग्रेड 'क' तथा 'ख' (साममलित) में नियुक्त करते हैं :-

1. श्री रमेश चन्द्र

2. श्री सन्तोष कुमार शर्मा

2. उक्त अधिकारियों को पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इससे निजी सचिव के ग्रेड में नियमित पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

दिनांक 2 मई 2005

सं० 32015/1/2005/स्था०-I-राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी०एस०एस०) के सहायक श्री आर के खेडा ग्रेड-IV को 21-4-2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक तदर्थ आधार पर कृषि एवं सहकारिता विभाग के केन्द्र में 6500-10,500/- रु० के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख', राजपात्रता) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में श्री खेडा की यह तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित गर्तों के अधीन होगी :-

यथा

(I) तदर्थ प्रोन्नति का उद्देश्य मात्र कामचलाऊ व्यवस्था बनाए रखना होता है और इसके केन्द्र में अतिरिक्त काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।

(II) यह तदर्थ नियुक्ति तब तक बनी रहेगी जब तक कि वरिष्ठता कोटा और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता के माध्यम से नियमित अभ्यर्थी अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में उपलब्ध नहीं हो जाता है। यदि तदर्थ आधार पर कार्य करने वाला अधिकारी उद्युक्त दोनों गर्तों में से किसी भी एक को अर्हता प्राप्त नहीं करता है तो ऐसे अधिकारी को नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

सं० 12022/3/2004-स्था०-I-राष्ट्रपति, राज्य सभा सचिवालय के वरिष्ठ निजी सचिव, श्री बदरुद्दीन खान को दिनांक 28-4-2005 के पूर्वाह्न से मानसोय कृषि मंत्री जी (श्री शरद पवार) के व्यक्तिक स्टाफ में 10,000-325-15200 रु० के वेतनमान में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री बदरुद्दीन को नियुक्ति कृषि मंत्री जी की इच्छा पर और सह-अवसानी है।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2005

सं० 19011/419/2005-स्था०-V-राष्ट्रपति, श्री डी० एन० ठाकुर, निदेशक (ऋण) को 28-4-2005 के (पूर्वाह्न) से 6 माह की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने पर अथवा आगामी आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में 12000-16500 रु० के वेतनमान में निदेशक (ऋण) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उद्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ है और इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनको निदेशक (ऋण) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार मिल गया है।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

समाकलित मत्स्यको परियोजना

कोचीन दिनांक 2005

सं० ए 2/7-192 बोर्ड-II-श्री, पी० सुलेमान, मत्स्यको सहायक, समाकलित मत्स्यको परियोजना, कोचीन की

अबोहस्ताक्षरी सहर्ष मत्स्यकी अधिकारी, वर्ग-ख राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय, के पद में रुपये 6500-200-10500 वेतनमान पर दिनांक 30-09-2004 (अपराह्न) की प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है। उनके लिए दिनांक 30-9-2004 से दो साल तक परिवीक्षा काल रहेगा।

जी० हसन मणिकान, निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई, 2005

सं० ए०-44011/9/2004-स्था० I—वरीयता कोटे में से वर्ष 2002 की अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची से उनके नाम शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति श्री रवीन्द्रनाथ मोहन्ती और श्रीमती जतिन्दर कौर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायकों को 02-05-2005 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण रूप में अनुभाग अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० के० मिश्रा, अवर सचिव

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2005

सं० 4-7/2005-प्रशासन I—राष्ट्रपति, श्री पी० एस० खरोला, भा० प्र० से० (कर्नाटक : 85) को 06-05-2005 के अपराह्न से उनके केन्द्रीय कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 30-9-2006 तक अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग में 15,100-400-18300/- रुपये के वेतनमान में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2-5-2005 के आदेश सं० 4/5/2005-ई ओ (एम एम-1) के अनुसरण में है।

आर० एस० शर्मा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2005

सं० ए-32014/1/2004-स्था—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-3-2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/9/2004-सी० एस० आई० के अनुसरण में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल सहायक श्री गुरजोत दत्ता को 11 अप्रैल 2005 के पूर्वाह्न से विशुद्धतः तदर्थ आधार पर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूरी तरह एक कामचलाऊ उपाय के रूप में की गई है और इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक जारी रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने हेतु अथवा इस ग्रेड में ज्येष्ठता का दावा करने के लिए उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 26 अप्रैल 2005

सं० ए-32014.1/2004-स्था० (भाग)—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-2-2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/9/2004-सी० एस० आई० (भाग) के अनुसरण में, दूरतंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल सहायक श्रीमती वेद ज्योति को 13 अप्रैल, 2005 के पूर्वाह्न से विशुद्धतः तदर्थ आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूरी तरह एक कामचलाऊ उपाय के रूप में की गई है और इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक जारी रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने हेतु अथवा इस ग्रेड में ज्येष्ठता का दावा करने के लिए उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

सं० ए-32014/1/2004-स्था० (भाग)—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-2-2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/9/2004-सी० एस० आई० (भाग) के अनुसरण में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल सहायक श्रीमती शशि सोनी को 21 अप्रैल, 2005 के पूर्वाह्न से विशुद्धतः तदर्थ आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूरी तरह एक कामचलाऊ उपाय के रूप में की गई है और इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक जारी रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने हेतु अथवा इस ग्रेड में ज्येष्ठता का दावा करने के लिए उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

सं० ए-32014/1/2004-स्था० (भाग) —राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-2-2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/9/2004-सी०एस०आई० (भाग) के अनुसरण में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल सहायक श्री परीमल करण को 20 अप्रैल 2005 के पत्राज्ञा से विशुद्धतः तदर्थ आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूरी तरह एक कामचलाऊ उपाय के रूप में की गई है और इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक जारी रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने हेतु अथवा इस ग्रेड में ज्येष्ठता का दावा करने के लिए उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल० गी० मेहरा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 मई 2005

सं० ए-20011/1/96-प्रशासन—महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री कोटा इसरैल, (कर्मचारी कोड सं० 3440) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र आन्ध्र प्रदेश राज्य एकक, हैदराबाद में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-“एस बी” के पद से त्यागपत्र दिनांक 25 अगस्त, 2000 को अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी० एस० पिल्लै, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-II)

सं० ए-19015/1/89-प्रशासन—महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री जी० प्रभाकर रेड्डी, (कर्मचारी कोड सं० 2087) का वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड “एस०बी” के पद से त्यागपत्र दिनांक 28 फरवरी 1997 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है। उनकी दिनांक 17-12-1996 से 28-2-1997 तक की अनुपस्थिति की अवधि वित्तीय नियमावली, 17 के अन्तर्गत अकार्य दिवस के रूप में मानी जाएगी।

पी० एस० पिल्लै, उपनिदेशक (कार्मिक व स्था० II)

दिनांक 10 मई 2005

सं० एन आई सी/जी जे एस सी/प्रशासन/2005-133—महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र श्री जी० पञ्जहाणि कुमार, (कर्मचारी कोड सं० 5215) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र आन्ध्र प्रदेश राज्य एकक, हैदराबाद में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-“एस बी” के पद से त्यागपत्र दिनांक 25 फरवरी, 2005 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी० एस० पिल्लै, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना II)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 मई 2005

सं० एन आई सी/पी एफ/1875/2005-का० व स्था० I—राष्ट्रपति एतद्वारा श्री सी० चन्दन, (कर्मचारी कोड सं० 1875) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र गोवा राज्य एकक, पणजी में वैज्ञानिक-डी के पद से त्यागपत्र दिनांक 31 मार्च, 2005 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर० एम० नायर, उपनिदेशक (कार्मिक व स्था० II)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल, 2005

सं० 4-35/2003-एसपीजी—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित कर्मचारियों को भारतीय डाक सेवा समूह ‘क’ के कनिष्ठ समय मान में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए पूर्णतया अस्थाई और तदर्थ आधार पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि अथवा 30-6-2005 तक (उन मामलों में जहाँ निदिष्ट तारीख प्रस्तुत नहीं की गई है) अथवा व्यवस्था की समाप्ति अथवा कथित ग्रेड में उनकी नियमित नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं० कर्मचारी का नाम	संबंधित सचिव का नाम	प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख	वह अवधि जिसके लिए अनुमति मांगी गई है
1	2	3	4
सर्व/श्री			5
1. एन० सी० बामन	पश्चिम बंगाल		01-07-03 — आज तक
2. ए० लिंगाराजू	—वही—	05-11-01	—वही— 05-09-04

1	2	3	4	5
3.	एम० के० मंडल	पश्चिम बंगाल	04-05-02	01-07-03 05-09-04
4.	सी० आर० प्रमानिक	-वही-	22-03-02	-वही- - 31-08-03
5.	एस० के० शाहा	-वही-		08-09-03 - आज तक
6.	एस० गी० बोस	-वही-		-वही- - -वही-
7.	एन० जी० साहा	-वही-		28-01-04 - -वही-
8.	एस० मुखर्जी	-वही-		05-04-04 - -वही-
9.	एम० सेनगुप्ता	-वही-		12-04-04 - -वही-
10.	ए० गांगुली	-वही-		16-06-04 - -वही-
11.	के० बी० गुप्ता	-वही-		28-06-04 - -वही-
12.	बी० एम० परमार	गुजरात		02-04-03 - -वही-
13.	ए० बी० पटेल	-वही-		07-04-03 - -वही-
14.	ए० यू० वहोरा	-वही-		10-04-03 - 19-09-04
15.	ए० ए० सोलंकी	-वही-		05-06-03 - 19-12-04
16.	डी० आर० सेनगल	-वही-	20-04-01	01-07-02 - 17-12-02
17.	ए० डी० बनकार	-वही-		27-02-02 - 15-09-04
18.	आर० जे० परमार	-वही-		26-02-02 - 17-09-04
19.	एन० बी० सोलंकी	-वही-		16-12-02 - 30-04-04
20.	आर० डी० पटेल	-वही-		01-08-03 - 20-09-04
21.	ए० जी० वहोरा	-वही-	01-01-02	01-01-03 - 31-03-03
22.	जे० एम० जोशी	-वही-		06-04-04 - आज तक
23.	एम० एस० अली	तमिलनाडु	01-01-02	01-01-03 - 30-06-04
24.	पी० कंडास्वामी	-वही-		31-01-03 - 16-09-04
25.	के० कृष्णा नाईक	कर्नाटक	30-06-2004	01-10-2004-आज तक
26.	के० एस० आर० शास्त्री	-वही-	01-04-2004	02-10-2004-वही-
27.	एस० आर० अर्जुनापी	-वही-	21-05-2004	01-10-2004-वही-
28.	लक्ष्मण सिंह	उत्तर प्रदेश	07-06-2002	07-06-2002 30-09-2004
29.	एस० आर० चौकसे	मध्य प्रदेश		29-08-03-22-09-2004 (पूर्व.)
30.	बी० डी० शर्मा	-वही-		31-10-2003-आज तक
31.	एन० के० सेनापति	उड़ीसा	16-04-2001	01-01-2004-30-06-2005
32.	जे० नाहक	-वही-	14-09-01	01-01-2004 30-06-2005
33.	एस० सी० दास	-वही-	19-08-2002	-वही- -वही-
34.	जी० जेना	-वही-	29-03-2002	-वही- -वही-

1	2	3	4	5
सर्व/श्री				
35. प्रेमनन्द पाल	उड़ीसा	25-07-2003	1-1-2004	30-6-2005
36. भगवान सामल	-वही-	01-08-2003	-वही-	-वही-
37. सिद्धेश्वर दास	-वही-	26-02-2004	26-02-2004	30-06-2005
38. डी० पी० खेरवा	हरियाणा		01-07-2003-आज तक	
39. आर० सी० शर्मा	-वही-		30-09-2003-आज तक	
40. एस० बी० मलहोत्रा	-वही-		30-04-2004(अप.)-आज तक	
41. एन० बी० कल्याणकर	महाराष्ट्र	02-07-2000	01-01-2003-आज तक	
42. एस० बी० कुलकर्णी	-वही-	28-02-2001	-वही- 07-04-2004	
43. पी० सी० गायकवाड	-वही-	12-09-2001	-वही- आज तक	
44. एस० बी० खैरनार	-वही-	31-03-2003	31-03-2003-आज तक	
45. डी० सी० वानखेडे	-वही-	23-05-2003	23-05-2003 आज तक	
46. जी० टी० रावत	-वही-	26-05-2003	26-05-3003 -वही-	
47. एन० बी० सुतार	-वही-	08-05-2003	08-05-2003 -वही-	
48. डी० एल० दीघे	-वही-	26-05-2003	26-05-2003 -वही-	

बी० पी० पंत, सहायक महानिदेशक(एसजीपी)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2005

सं० ईआरबी-I/2005/2/28—श्री आर० के० चौपड़ा, उप निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड को, 2-5-2005 के पूर्वाह्न से, 12,000-16,500/- रु० के ग्रेड में संयुक्त निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एम० के० अग्रवाल, सचिव रेलवे बोर्ड

दिनांक 9 मई 2005

सं० ई आर बी-I/2005/2/27— श्री रमेश चन्द्र, भारतीय रेल बिजली इंजीनियर सेवा, महाप्रबंधक, दक्षिण रेल को 1-5-2005 के पूर्वाह्न से, सदस्य (बिजली), रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एम० के० अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 17 मई, 2005

सं० ई (जी० पी० 2003/1/56—राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल भंडार विभाग के निम्नलिखित 12 ग्रुप 'बी' 3—82 GI/2005

अधिकारियों को उल्लिखित रेलों पर दिनांक 21-3-2005 से भारतीय रेल भंडार सेवा (आई आर एस एस) के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्त किये जाने का अनुमोदन करते हैं :-

क्रम संख्या अधिकारियों का नाम

मध्य रेलवे

सर्व/श्री

1. ए० के० घोष

पूर्व रेलवे

1. एस० कुमार (अ० ज० ज०)

उत्तर रेलवे

1. जगदीश प्रसाद वर्मा (अ० ज०) (अब उत्तर पश्चिम रेलवे में कार्यरत हैं)

2. जगजीत सिंह

3. गोविन्द प्रसाद (अ० ज०)

उत्तर पूर्व रेलवे

1. एस० एन० ठाकुर

क्र० सं० अधिकारियों का नाम

दक्षिण रेलवे

सर्व/श्री

1. टी० एस० गणेश
2. के० अमीर खान
3. अरिउदयनम्बी (अ० जा०)
4. वी० नागराजन (अ० जा०)

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. डी० चौधरी

पश्चिम रेलवे

1. पी० वी० जम्भेकर

एम० के० अग्रवाल, सचिव/रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2005

सं० 2003/स्था० (राज० म) i/1/1—राष्ट्रपति जी भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र०सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	सर्वश्री/श्री/कु०	
1.	विवेक कुमार मिश्रा	15-7-2003
2.	गौरव कुमार	15-7-2003
3.	बृजेश कुमार पांडे	27-12-2004
4.	परिवेश साहु	29-7-2003
5.	विद्या भूषण	26-6-2004
6.	योगेश कुमार देवांगन	26-6-2004
7.	उत्कर्ष	15-7-2003
8.	दिव्या मिश्रा	15-7-2003
9.	सौम्या खरे	26-6-2004
10.	गौरव शर्मा	15-7-2003
11.	विनय मिश्रा	15-7-2003
12.	रमन्ना अल्ला	26-6-2004
13.	अमित सिन्हा	26-6-2004
14.	आशिष शर्मा	15-7-2003
15.	राजेश कुमार	26-6-2004

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था० (जी आर)
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2005

सं० ए-22011/2/2005-स्था०-1—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री पी० एस० घोष को दिनांक 2-5-2005 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 10,000-325-15 200/- रुपए के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का ग्रेड-I) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें अनिश्चित काल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दाव करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। यह तदर्थ नियुक्ति कोई कारण बताए बगैर कभी भी समाप्त की जा सकती है।

डॉ० आर० के० अग्रवाल, अवर सचिव

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 मई 2005

सं० 1/4/04-प्रशा० I—राष्ट्रपति द्वारा श्री शेषपाल सिंह कृष्णकुमार सिंह हजारो, रिगेडर, नगपुर नगर निगम को दिनांक 29-4-2005 के पूर्वाह्न से 6500-200-10,500 रु० के वेतनमान में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री, श्री विजयस मुत्तेमवार के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

सहायक निजी सचिव के रूप में श्री शेषपाल सिंह कृष्ण-कुमार सिंह हजारो को नियुक्ति अस्थायी और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री के कार्यकाल की सह-समाप्ति आधार पर अथवा जब तक माननीय मंत्री द्वारा उनकी सेवाएं अपेक्षित हैं, जो भी पहले हो, की गई है।

जे० मजूमदार, अवर सचिव

महासागर विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 मई 2005

सं० मवि-17/1/2005-स्थापना—कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 फरवरी, 2005 के आदेश सं० 21/13/2004-पी एस I (बो) के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री एम० एल० शर्मा को केन्द्रीय सिविल सेवा के जूनियर ग्रेड (उप सचिव) रु० 12,000-375-16,500 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 2 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न से अगले

आदेश तक नियुक्त करते हैं। यह तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

(i) श्री शर्मा की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा के चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

(ii) यह तदर्थ नियुक्ति किसी समय कोई कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती है।

बी० एल० कुरील, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 मई 2005

सं० मविधि-17/1/2005-स्थापना—कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 फरवरी, 2005 के आदेश

सं० 21/40/2004-सीएस I(बो) के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) श्री टी० टी० एक्का को रु० 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 21 फरवरी, 2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं। यह तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

(i) श्री एक्का की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने का अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

(ii) यह तदर्थ नियुक्ति किसी समय कोई कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती है।

एम० एल० शर्मा, उप सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 2005

सं० ए-38011/1/2005-भा०सू०से०—अधिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ श्रेणी के समूह 'क' के निम्नलिखित अधिकारी उनके नामों के सामने दी गई तारीख से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	धारित पद	कार्यालय	इली सं०	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्री एस० आर० ओझा	समाचार संपादक	समाचार सेवा प्रभाग, आकाश-वाणी, नई दिल्ली	8171	31-1-2005
2.	श्री राजेन्द्रराय	संपादक	प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली	8033	-वही-
3.	श्री बी० पी० राठौड़	सूचना अधिकारी	पत्र सूचना कार्यालय, अहमदाबाद	9879	-वही-
4.	श्री यू० सी० राय	समाचार संपादक	समाचार सेवा प्रभाग, आकाश-वाणी, लखनऊ	—	-वही-
5.	श्री आर० जी० पुजारी	सूचना अधिकारी	पत्र सूचना कार्यालय, मुम्बई	—	-वही-
6.	श्री जी० एस० रंधावा	विशेष संवाददाता	आकाशवाणी, काबुल	8080	28-2-2005
7.	श्री डी० जी० महापात्र	जनसंपर्क अधिकारी	के० रि० पु० ब० महानिदेशालय, नई दिल्ली	4645	-वही-
8.	श्री एच० के० वर्मा	सूचना अधिकारी	पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली	8160	-वही-
9.	श्री सुरेन्द्र कुमार	समाचार संपादक	समाचार सेवा प्रभाग, आकाश-वाणी, नई दिल्ली	—	-वही-
10.	श्री जे० महंत	संपादक	प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली	8074	31-3-2005
11.	श्री दिलीप सिंह	संपादक	प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली	8558	-वही-
12.	श्री पी० राजेन्द्रन	जनसंपर्क अधिकारी	डी० पी० आर० (रक्षा) तिरुअनंतपुरम	8117	-वही-

2. इन अधिकारियों ने अपने नामों के सामने दी गई तारीख से अपने संबंधित कार्यालयों में धारित पद का कार्यभार त्याग दिया है।

विनय कुमार सेखड़ी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2005

शहरी विकास मंत्रालय

सं० 1/9/2000-एम०यू०सी०—राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की दिनांक 23-4-2002 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में श्री आर० बी० दीक्षित, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय की विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय में वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि को तीन वर्षों से आगे अगले एक वर्ष के लिए (अर्थात् चौथे वर्ष के लिए) दिनांक 21-3-2005 (अपराह्न) से दिनांक 20-3-2006 तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले ही, बढ़ाते हैं।

एस० बी० कृष्णना, अवसर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2005

सं० के-11011/22/2004-डीडी 1ए—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस : 76) के अधिकारी श्री बी० के० साधु को दिल्ली विकास प्राधिकरण (संयुक्त सचिव स्तर) में 18,400—22400/- रु० के वेतनमान में प्रधान आयुक्त के पद पर उनके द्वारा पद का प्रभार सम्भालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले ही, नियुक्त करते हैं।

परमजीत सिंह, डेस्क अधिकारी

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 17th May 2005

No. RS/6(ii)/2005/24-Perl.—The services of Shri Rakesh Singh, IAS (Karnataka : 1989) who had been appointed as Officer on Special Duty in the personal staff of Shri K. Rahman Khan, Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha on co-terminus basis stand terminated with effect from the afternoon of 17th May, 2005 and are placed back at the disposal of the Government of Karnataka.

P. R. GUHA ROY, Director

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 16th May 2005

No. 5/6/1/2005-I—The President is pleased to appoint Smt. M. Sathiyavathy, IAS (AGMU : 82), as Controller (Administration) in ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the forenoon of 29th April, 2005 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 13th April 2005

No. A-19 (694)/94-Adm. II—Consequent upon his selection for appointment as Deputy Secretary in the Ministry of Social Justice and Empowerment on Central Deputation basis for a period of 4 years communicated *vide* Department of Economic Affairs' O. M. No. 13019/6/2004-IES dated 5.4.2005, Shri N. Sharan a Grade-III officer of IES and Senior Research Officer, Planning Commission is relieved with effect from the forenoon of 15.4.2005 to report to the Ministry of Social Justice and Empowerment.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 29th April 2005

No. F. 6 (1891)/2003-Adm. I—On attaining the age of superannuation, Shri Rajeeva Ratna Shah, IAS (UP : 67), Secretary, Planning Commission retires from Government service w.e.f. the afternoon of 30.04.2005.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 2nd May 2005

No. F. 6 (1891)/2003-Adm. I—In pursuance of ACC's approval conveyed by the Department of Personnel & Training *vide* their Order No. 7/3/2005-EO (SM. I) dated 30th April, 2005, Shri Rajeeva Ratna Shah has assumed charge as Member-Secretary in the Planning Commission w.e.f. the forenoon of 1st May, 2005.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

4—82 GI/2005

No. A-12026/3/99-Adm. II—The President is pleased to appoint Shri P. Narayanan, a regular Research Assistant (Eco.) of the Planning Commission as Economic Officer (Group 'B' Gazetted) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in the Planning Commission on regular promotion basis w.e.f. 01.05.2005 (FN) and until further orders.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A. 19 (759)/97-Adm. II—The President is pleased to permit Shri K. K. Samajdar, a Grade-III Officer of IES and Senior Research Officer, Planning Commission to retire voluntarily from Government service with effect from the forenoon of 2.5.2005 under FR 56 (K) read with Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 6th May 2005

No. A-12022/1/2004-Adm. IV—The President is pleased to appoint Mrs. Surbhi Jain Grade-IV (JTS) officer of the Indian Economic Service as Research Officer in the scale of Rs. 8000-275-13500/- in the Regional Evaluation Office of the Programme Evaluation Organisation (Planning Commission) at Lucknow, with effect from the forenoon of 8th April, 2005.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 12th May 2005

No. 14016/39/2002-UTS-II—The President is pleased to appoint Shri P. C. Chaturvedi, Entry Grade officer of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service (DANICS) to the Selection Grade of the Service in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 1st January, 1999. On his promotion, his name will appear at Sl. No. 19-A below the name of Shri A. Hamza and above the name of Shri V. K. S. Chauhan in the Ministry of Home Affairs Notification No. 14016/39/2002-UTS-II dated 11th April, 2005.

for and on behalf of the President

N. J. THOMAS, Under Secy.

New Delhi, the 16th May 2005

No. A-31014/7/2001-Ad. I—Shri S. T. Venkatchalapathy, was appointed as Section Officer (Probationer) with effect from 1.7.1999 and placed on probation for a period of two years. The period of probation is hereby extended for a further period of 6 months from 1.7.2001, and he has completed the extended period of probation successfully on 31.12.2001.

2. The President is now pleased to confirm Shri S. T. Venkatchalapathy in the Section Officers' Grade of the CSS Cadre of Ministry of Home Affairs with effect from 1st January, 2002.

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS**

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 10th May 2005

No. 24012/21/2002-Estt (B)—The President is pleased to appoint Shri Amol S. Kamat, IRS (93) as Regional Director in the Regional Office of Staff Selection Commission at Bangalore with effect from afternoon of 04th April, 2005 for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

Smt. SUBHA THAKUR, Under Secy.

New Delhi, the 10th May 2005

No. 14012/18/2004-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service born on the State Cadre of Gujarat with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri Hareet Shukla	1999	20.09.2001
2.	Shri Ajay Bhadoo	1999	20.09.2001

G. C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 11th May 2005

No. A. 32013/5/2005-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri I.M.G. Khan, IPoS (70), as Additional Secretary in Department of Pensions & Pensioners Welfare with effect from the forenoon of 25th April, 2005, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 3rd March 2005

**INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS &
CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS**

No. 06 of 2005 (F. No. A-38012/28/2004-Ad. II)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement rendered by Shri M. A. A. R. Antulay, Asstt. Commissioner of Customs (Preventive)—Delhi from Government Service, Group "A" with effect from 28.02.2005 under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

K. KIPGEN, Under Secy.

New Delhi, the 08th April 2005

No. 44 : (F. No. A. 19011/12/2005-Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri Berjinder Singh, IRS : 1968, as Chairman, Central Board of Direct Taxes and Ex-officio Special Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, with effect from 06.04.2005 (FN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 45 : (F. No. A. 19011/13/2005-Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri K. Rangabashyam, IRS : 1968, as Member, of the Central Board of Direct Taxes and Ex-officio Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, with effect from 06.04.2005 (FN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 46 : (F. No. A. 19011/14/2005-Ad. I)—The President is pleased to appoint Ms. Kameswari Subramaniam, IRS (C & CE) : 80, as Joint Secretary in the Department of Revenue for a period of five years w.e.f. 04.04.2005 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

PREETI PANT, Under Secy.

The 26th April 2005

No. 50 (F. No. A-19013/7/2005-Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri B. K. Chakravarty, IRS (C & CE) as Technical Officer in the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 21.4.2005 (FN) and until further orders. He is posted as Technical Officer (TRU).

PREETI PANT, Under Secy.

The 28th April 2005

No. 51 : (F. No. 19014/6/91-Ad. I)—In pursuance of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language Office Memorandum No. 5/7/2005-O. L. (Service) dated 5.4.2005 the President is pleased to appoint Smt. Richa Banerjee, an officer of Central Secretariat Official Language Service, as Deputy Director (Official Language) in the Department of Revenue in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 6.4.2005 (FN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 52 : (F. No. A-19013/8/2005-Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri Gyan Sarvar, IRS (C & CE) as Senior Technical Officer in the Central Economic Intelligence Bureau (CEIB) in the Department of Revenue for period of three years w.e.f. 21.4.2005 (FN) and until

further orders. He is posted as Senior Technical Officer, Central Economic Intelligence Bureau.

PREETI PANT, Under Secy.,

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 10th May 2005

No. 5/2005—The President is pleased to appoint Justice R. K. Abichandani, retired judge of the Gujarat High Court, as President of the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, w.e.f. the forenoon of 14th April, 2005 for a period till he attains the age of 65 years or until further orders, whichever is earlier.

MUKUL SINGHAL, Director

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 26th April 2005

F. No. 3/29/03-Cy. III—The President is pleased to appoint Shri K. M. Kunjan, AD/Exe of Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs as Vigilance Officer (Group 'A'—Gazetted) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- in India Security Press, Nashik Road on deputation basis for a period of 3 years with effect from the forenoon of 2nd March, 2005.

A. K. KHANNA, Under Secy.

The 4th May 2005

F. No. 1/34/96-Cy. III—The President is pleased to appoint Shri R. G. Bhoite, Pay & Accounts Officer, in the Currency Note Press, Nashik Road as the Chief Administrative Officer in the Currency Note Press, Nashik Road in the pay scale of Rs. 10000—15200/- (Group 'A' Gazetted) on deputation basis for a period of 3 years with effect from the forenoon of 20th April, 2005 and until further orders.

A. K. KHANNA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 10th May 2005

No. A. 12026/3/2005-Admn. I—The President is pleased to appoint Shri Ashok Thomas, a regular Section Officer of the Central Secretariat Service as Under Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- on purely ad hoc basis with effect from the forenoon of the 6th May, 2005 and until further orders :

2. The above-mentioned ad hoc appointment will be subject to the following conditions :—

- (a) Ad hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in

the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.

- (b) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 11th May 2005

No. PFCA (136) Admn. I/2005—The President is pleased to appoint Shri Jugal Kishore Puri, an Officer of the Indian Cost Accounts Service, presently Additional Chief Adviser (Cost) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, as Chief Adviser (Cost) in the scale of pay of Rs. 26,000/- (fixed) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, with effect from the afternoon of the 5th May, 2005.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

New Delhi-110 003, the 11th May 2005

No. A. 12025/1/2003/MF. CGA/Gr. A/767-76—On the results of the Civil Services (Main) Examination, 2003 held by Union Public Service Commission in 2003, the President is please to appoint the following candidate as probationer in the Indian Civil Accounts Service (Group-A) with effect from the date indicated below :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
1.	Shri Subhash Chandra	10.1.2005

Mrs. DHARITRI PANDA, Dy. Controller General of Accounts

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 28th April 2005

No. A-35020/1/2002-ES. I (Cadre)—The President is pleased to appoint Shri R. M. Mishra, IAS (AM : 1987), as Director in the Department of Commerce, M/o Commerce & Industry in the scale of pay of Rs. 14300—18300/- on Central Deputation basis for a period of five years w.e.f. the forenoon of 28h April, 2005 or until further orders, whichever is earlier.

S. DAS, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 24th February 2005

No. A-19011/1/2005-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's Order No. 21/40/2004-CS. I (B)

dated 15.02.2005, the President is pleased to appoint Shri S. K. Chitkara as Grade-I (Under Secretary) on ad hoc basis in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-, w.e.f. the forenoon of 18.02.2005 until further orders.

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I. The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reasons therefor.

L. S. NEGI, Under Secy.

No. A-19011/2/2005-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's Order No. 21/40/2004-CS. I (B) dated 15.02.2005, the President is pleased to appoint Shri Bal Krishan Dutta as Grade-I (Under Secretary) on ad hoc basis in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-, w.e.f. the forenoon of 23.02.2005 until further orders.

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I. The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reasons therefor.

L. S. NEGI, Under Secy.

New Delhi, the 18th February 2005

No. A-19011/2/2002-Estt.—On completion of his Central Deputation Tenure, the services of Shri Tarun Shridhar, IAS (HP : 84), Director in the Ministry of Petroleum & Natural Gas are placed at the disposal of Government of Himachal Pradesh w.e.f. 7th March, 2005 (AN).

L. S. NEGI, Under Secy.

The 10th March 2005

No. A-12011/17/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ajay Tyagi, IAS (HP : 84) as Joint Secretary in the Ministry of Petroleum & Natural Gas w.e.f. 07.03.2005 (AN) for the balance period of his Central Deputation Tenure of 5 years, i.e., up to 12.08.2006 or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. Shri Ajay Tyagi has assumed the charge of the office of the Joint Secretary in the Ministry of Petroleum & Natural Gas on the aforesaid date.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

The 23rd March 2005

No. A-19011/5/2005-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's OM No. 21/9/2004-CS. I (Pt.) dated

17.02.2005, the President is pleased to appoint Shri Suresh Kumar Nayak, Assistant of the Central Secretariat Service (CSS) borne on the cadre of Ministry of Finance, Department of Revenue as Section officer of CSS on ad hoc basis in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-, w.e.f. the forenoon of 22.03.2005 until further orders.

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade. The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reasons therefor.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

The 4th April 2005

No. A-12011/15/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Vivek Kumar Dewangan, IAS (MT : 93) as Deputy Secretary in the Ministry of Petroleum & Natural Gas with effect from 4.4.2005 (AN) for a period of four years or until further orders.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

The 8th April 2005

No. A-12011/1/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ravi Capoor, IAS (AM : 86) as Director in this Ministry w.e.f. 8.4.2005 (FN) for the balance period of his central tenure of five years i.e. upto 13.2.2008 from the date of his taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 16th February 2005

No. P-II/567/84-Estt.—Consequent upon his promotion to the post of Under Secretary vide Department of Personnel & Training Order No. 21/40/2004-CS. I (B) dated 15th February 2005, the President is pleased to relieve Shri Surender Kumar Garg, Section Officer (CSS), Ministry of Mines of his duties with effect from the forenoon of 17th February 2005.

T. S. BHATIA, Under Secy.

New Delhi, the 16th March 2005

No. 3(3)/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sukhveer Chudhary, IRS (IT : 94) as Private Secretary to the Minister of Mines (Shri Sis Ram Ola) at the level of Deputy Secretary with effect from the forenoon of 27th November 2004 till he ceases to function as Private Secretary

to the Minister of Mines or until further orders whichever event occurs the earliest.

T.S. BHATIA, Under Secy.

No. P-I/403/2003-Estt.—The President is pleased to relieve Shri C. D. Arha, IAS (AP : 68) from the post of Secretary in the Ministry of Mines with effect from the forenoon of 25th April, 2005 to take over the charge of Adviser, Planning Commission in the rank and pay of Secretary, as assigned to him vide Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Personnel, Department of Personnel & Training's Communication No. 7/2/2005-EO (SM. I) dated 20th April, 2005.

T. S. BHATIA, Under Secy.

The 25th April 2005

No. 3/7/2005-Estt.—In pursuance of Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Personnel, Department of Personnel & Training's Communication No. 7/2/2005-EO (SM. I) dated 20th April, 2005, Shri P. C. Parakh, IAS (AP : 69), Secretary, Ministry of Coal will hold full additional charge as Secretary, Ministry of Mines with effect from the forenoon of 25th April, 2005 till further orders.

T. S. BHATIA, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi, the 10th May 2005

No. A-32013/2/95-Admn.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 1st November, 2004, the President is pleased to extend the term of appointment of Shri Madan Mohan permanent Assistant Director in the Department of Public Enterprises as Deputy Director in the same office on ad hoc basis for a further period of six months w.e.f. 28.4.2005 (FN) or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

G. S. BOTHYAL, Director

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110 016, the 3rd May 2005

F. No. A-12014/01/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Satish Bairagi, Assistant Research Officer (S & T), Cabinet Secretariat, as Scientist 'C' in Department of Scientific and Industrial Research in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on purely deputation

basis with effect from the forenoon of the 29.04.2005 for a period of one year or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

2. His terms and conditions of deputation to the Department will be regulated in accordance with the Department of Personnel & Training O.M. NO. 2/29/91-Estt. (Pay. II) dated 5th January 1994 as amended from time to time.

GURMIT SINGH, Under Secy.

F. No. A-12014/01/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kesharwapi, Examiner of Patents & Designs, in the Office of the Controller General Patents, Designs & Trade Marks, Mumbai, as Scientist 'C' in Department of Scientific and Industrial Research in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on purely deputation basis with effect from the forenoon of the 13.04.2005 for a period of one year or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

2. His terms and conditions of deputation to the Department will be regulated in accordance with the Department of Personnel & Training O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay. II) dated 5th January 1994 as amended from time to time.

GURMIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110 003, the 9th May 2005

No. Z. 20018/1/2000-CPA (.)—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated the 14th January, 2002, the President is pleased to extend the tenure of Shri Vishwanath Anand as Vice-Chairperson of the National Environment Appellate Authority for a further period of six months with effect from 1.2.2005 to 31.7.2005. Other terms and conditions of the Notification dated 14th January, 2002 will remain same.

K. V. MATHEW, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 19th April 2005

CORRIGENDUM

No. 2-1/2004-NRM. III—In partial modification of Notification No. 2-1/2004-NRM. III dated 7.6.2004 the date of appointment of Dr. S. K. Rudra, Asstt. Soil Chemist, Kolkata Regional Centre, All India Soil & Land Use Survey (AIS & LUS) to the post of Soil Survey Officer (G. C. S. Group 'A') in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-, on officiating promotion basis, in the same Organization, may be treated as 13th April, 2004 (FN) instead of 19th April 2004 (FN).

M. P. THOMAS, Under Secy.

New Delhi, the 27th April 2005

No. 12022/1/2005-E. I—The President is pleased to appoint the following Personal Assistants of the Central Secretariat Stenographers Service belonging to the cadre of the Department of Agriculture & Cooperation, to Grade 'A' & 'B' (Merged) of the Central Secretariat Stenographers Service (Private Secretaries) on purely ad hoc basis with effect from the forenoon of 20.4.2005 for a period not exceeding six months or till the Select List Officers become available, whichever is earlier :—

- (i) Shri Ramesh Chander
- (ii) Shri Santosh Kumar Sharma

2. The promotion of the above officers is purely on ad hoc basis and will not confer any claim for regular promotion and seniority in the grade of Private Secretary.

K. D. UPRETI, Under Secy.

The 2nd May 2005

No. 32015/1/2005-E-I—The President is pleased to appoint Shri R. K. Khera, Grade IV of the Central Secretariat Service (CSS) (Assistant) as Section Officer in the pay scale of Rs. 6500—10,500/- (Group 'B' Gazetted) in the Cadre of Department of Agriculture & Cooperation on ad hoc basis with effect from the forenoon of 21.4.2005 until further orders :—

2. The ad hoc promotion of Shri Khera to the grade of Section Officer is subject to the following conditions :—

- (i) Ad hoc promotion is purely as a stop-gap measure and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's grade.
- (ii) Ad hoc arrangement will continue till regular candidates in Section Officer's Grade are available through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular Section Officers.

K. D. UPRETI, Under Secy.

No. 12022/3/2004-E-I—The President is pleased to appoint Shri Badruddin Khan, Senior Private Secretary, Rajya Sabha Secretariat as Additional Private Secretary in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the personal staff of Hon'ble Minister for Agriculture (Shri Sharad Pawar) w.e.f. the forenoon of 28.4.2005.

2. The appointment of Shri Badruddin is Co-terminus with and at the pleasure of Minister for Agriculture.

K. D. UPRETI, Under Secy.

The 11th May 2005

No. 19011/419/2005-E.V—The President is pleased to appoint Shri D. N. Thakur, Deputy Director (Credit) as Director (Credit) in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/- in the Department of Agriculture & Cooperation purely on ad-hoc basis with effect from 28.4.2005 (FN) for a period of six months or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earliest.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and will not confer any right to claim seniority in the grade of Director (Credit).

K. D. UPRETI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

INTEGRATED FISHERIES PROJECT

COCHIN

Cochin, the 2005

NO. A2/7-192/77-Vol.II—The undersigned is pleased to promote Shri P. Sulaiman, Fishery Asstt., Integrated Fisheries Project, Cochin to the post of Fishery Officer Group 'B' Gazetted Non-Ministerial in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 30.9.2004 (AN). He will be on probation for a period of 2 years with effect from 30.9.2004.

G. HASSAN MANIKFAN, Director

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 4th May 2005

No. A. 44011/9/2004-E.I—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers for the year 2002 against Seniority Quota, the President is pleased to appoint Shri Rabindranath Mohanty and Smt. Jatinder Kaur, permanent Assistants of the CSS cadre as Section Officers in the officiating capacity in the CSS cadre of the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary & Higher Education) with effect from 02.05.2005.

K. K. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 9th May 2005

F. No. 4-7/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Shri P. S. Kharola, IAS (KN : 85), as Director in the Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development, in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/- with effect from the afternoon of 06.5.2005, for the balance period of his Central tenure i.e. upto 30.09.2006 or until further orders, whichever is earlier.

2. This is in pursuance of DOPT's order No. 4/5/2005-EO(MM.I) dated 2.5.2005.

R. S. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 25th April 2005

No. A-32014/1/2004-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 21/9/2004-CS.I dated 25.03.2004, the President is pleased to appoint Shri Surajit Dutta, a substantive Assistant of the CSS cadre of the Ministry of Social Justice & Empowerment, to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Social Justice & Empowerment on purely ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 11th April, 2005 and until further orders.

2. This Ad-hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 26th April 2005

No. A-32014/1/2004-Estt.(Pt.)—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 21/9/2004-CS.I(Pt.) dated 17.02.2005, the President is pleased to appoint Smt. Ved Jyoti, a substantive Assistant of the CSS cadre of the Department of Telecommunications, to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Social Justice & Empowerment on purely ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 13th April, 2005.

2. This Ad-hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-32014/1/2004-Estt.(Pt.)—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 21/9/2004-CS.I(Pt.) dated 17.02.2005, the President is pleased to appoint Smt. Shashi Soni, a substantive Assistant of the CSS cadre of the Ministry of Environment & Forests, to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Social Justice & Empowerment on purely ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 21st April, 2005.

2. This Ad-hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-32014/1/2004-Estt.(Pt.)—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 21/9/2004-CS.I(Pt.) dated 17.02.2005, the President is pleased to appoint Shri Parimal Karan, a substantive Assistant of the CSS cadre of the Ministry of Environment & Forests, to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Social Justice & Empowerment on purely ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 20th April, 2005.

2. This Ad-hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS &
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 6th May 2005

No. A-20011/1/96-Adm.—DG, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. Kota Israil, (Emp. Code No. 3440) from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', NIC Andhra Pradesh State Unit, Hyderabad with effect from the afternoon of 05.08.2000 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (P&E.II)

No. A-19015/1/89-Adm.—DG, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. G. Prbhakar Reddy, (Emp. Code No. 2087) from the post of Scientist/Engineer Gr. 'SC' with effect from the afternoon of 28.02.1987 and he is relieved of his duties from the same day. His period of absence from 17.12.1996 to 28.02.1987 will be treated as dies-non under FR 17.

P. S. PILLAI, Dy. Director (P&E.II)

The 10th May 2005

No. NIC/GJSC/Admin/2005-133—DG, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. G. Pazhanikumar, (Emp. Code No. 5215) from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', NIC Andhra Pradesh State Unit, Hyderabad with effect from the afternoon of 25.02.2005 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (P&E.II)

New Delhi-110003, the 11th May 2005

No. NIC/PF/1875/2005-P&E.I—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement from Government service of Shri C. Chandran, Scientist 'D' (Emp. Code No. 1875), National Informatics Centre NIC-GOA State Unit, Panaji with effect from the forenoon of 31st March, 2005 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E-I)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 7th April 2005

No. 4-35/2003-SPG—The President is pleased to appoint the following officials to officiate in the Junior Time Scale of Indian Postal Service Group 'A' on purely temporary and ad-hoc basis for the period mentioned against each or upto 30.06.05 (in those cases where specified date is not produced) or till termination of the arrangement or their regular appointment to the said grade whichever is earlier.

S. No.	Name of the officers	Name of the circle concerned	Date of intial appointment	Period for which approval is sought
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	N C Baman	WB		01.07.03-To date
2.	A Lingaraju	Do.	05.11.01	01.07.03-05.09.04
3.	M K Mondal	Do.	04.05.02	01.07.03-05.09.04
4.	C. R. Pramanick	Do.	22.03.02	01.07.03-31.08.03
5.	S. K. Saha	Do.		08.09.03-To date
6.	S. C. Bose	Do.		08.09.03-To date
7.	N. G. Saha	Do.		28.01.04-To date
8.	S. Mukherjee	Do.		05.04.04-To date
9.	M. Sengupta	Do.		12.04.04-To date
10.	A. Ganguly	Do.		16.06.04-To date
11.	K. B. Gupta	Do.		28.06.04-To date
12.	V. M. Parmar	Gujarat		02.04.03- To date
13.	A. B. Patel	Do.		07.04.03-To date
14.	A. U. Vahora	Do.		10.04.03-19.09.04
15.	A. A. Solanki	Do.		05.06.03-19.12.04
16.	D. R. Sengal	Do.	20.04.01	01.07.02-17.12.02

1	2	3	4	5
	S/Shri			
17.	A. D. Vankar	Gujarat		27.02.02-15.09.04
18.	R. J. Parmar	Do.		26.02.02-17.09.04
19.	N. B. Solanki	Do.		16.12.02-30.04.04
20.	R. D. Patel	Do.		01.08.03-20.09.04
21.	A. G. Vahora	Do.	01.01.02	01.01.03-31.03.03
22.	J. M. Joshi	Do.		06.04.04-To date
23.	M. S. Ali	T. N.	01.01.02	01.01.03-30.06.04
24.	P. K. Kandaswamy	Do.		31.01.03-16.09.04
25.	K. Krishna Naik	Karnataka	30.06.04	01.10.04-To date
26.	K. S. R. Sastry	Do.	01.04.04	02.10.04-To date
27.	S. R. Arjunagi	Do.	21.05.04	01.10.04-To date
28.	Laxman Singh	U.P.	07.06.02	07.06.02-30.09.04
29.	S. R. Chouksey	M.P.		29.08.03-22.09.04 (FN)
30.	V. D. Sharma	Do.		31.10.03-To date
31.	N. K. Senapati	Orissa	16.04.01	01.01.04-30.06.05
32.	J. Nahak	Do.	14.09.01	01.01.04-30.06.05
33.	S. C. Dash	Do.	19.08.02	01.01.04-30.06.05
34.	G. Jena	Do.	29.03.02	01.01.04-30.06.05
35.	Premananda Pal	Do.	25.07.03	01.01.04-30.06.05
36.	Bhagban Samal	Do.	01.08.03	01.01.04-30.06.05
37.	Sidheswar Das	Do.	26.02.04	26.02.04-30.06.05
38.	D. P. Kherwa	Haryana		01.07.03-To date
39.	R. C. Sharma	Do.		30.09.03-To date
40.	S. B. Malhotra	Do.		30.04.04 (AN)- To date
41.	N. V. Kalyankar	Maharashtra	02.07.2000	01.01.03-To date
42.	S. B. Kulkarni	Do.	28.02.01	01.01.03-07.04.04
43.	P. C. Gayakwad	Do.	12.09.01	01.01.03-To date
44.	M. B. Khairnar	Do.	31.03.03	31.03.03-To date
45.	D. C. Wankhede	Do.	23.05.03	23.05.03-To date
46.	G. T. Raut	Do.	26.05.03	26.05.03-To date
47.	N. V. Sutar	Do.	08.05.03	08.05.03-To date
48.	D. L. Dighe	Do.	26.05.03	26.05.03-To date

B. P. PANT, Asstt. Director General (SGP)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 06th May 2005

No. ERB-I/2005/2/28—Shri R. K. Chopra, Deputy Director (OL), Railway Board, is appointed as Joint Director (OL), Railway Board, in Grade Rs. 12,000—16,500/-, with effect from the forenoon of 02.05.2005.

M. K. AGARWAL, Secy. Railway Board

The 09th May 2005

No. ERB-I/2005/2/27—Shri Ramesh Chandra, IRSEE, General Manager, Southern Railway, is appointed as Member (Electrical), Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India, with effect from the forenoon of 01.05.2005.

M. K. AGARWAL, Secy, Railway Board

The 17th May 2005

No. E (GP)2003/1/56—The President is pleased to approve of the undermentioned 12 Group 'B' officers of Stores Department of Indian Railways, being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Stores Service (IRSS) w.e.f. 21.3.2005 on the Railway mentioned.

Sl. No. Name of the Officer

S/Shri

Panel for 2004-05

Central Railway :

1. A. K. Ghosh

Eastern Railway :

1. S. Kumar (ST)

Northern Railway :

1. Jagdish Prasad Verma (SC) (now working on NWR)

2. Jagjit Singh

3. Govind Prasad (SC)

North Eastern Railway :

1. S. N. Thakur

Southern Railway :

1. T. S. Ganesh

2. K. Ameer Khan

3. Ariuadainambi (SC)

4. V. Nagarajan (SC)

South Eastern Railway :

1. D. Choudhury

Western Railway :

1. P. V. Jambhekar

M. K. AGARWAL, Secy., Railway Board

New Delhi, the 9th May 2005

No. 2Q03/E(GR)I/1/1—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway

Service of Mechanical Engineers with effect from the date noted against each:—

Sl. No.	Name	Date of Joining
	S/Shri	
1.	Vivek Kumar Mishra	15.07.2003
2.	Gaurav Kumar	15.07.2003
3.	Brijesh Kumar Pandey	27.12.2004
4.	Parivesh Sahu	29.07.2003
5.	Vidya Bhushan	26.06.2004
6.	Yogesh Kumar Dewangan	26.06.2004
7.	Utkarsh	15.07.2003
8.	Divya Mishra	15.07.2003
9.	Saumya Khare	26.06.2004
10.	Gaurav Sharma	15.07.2003
11.	Vinamra Mishra	15.07.2003
12.	Ramana Alla	26.06.2004
13.	Amit Sinha	26.06.2004
14.	Ashish Sharma	15.07.2003
15.	Rajesh Kumar	26.06.2004

MAMTA KANDWAL
Dy. Director, Estt. (GR),
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 12th May 2005

No. A-22011/2/2005-E-I—The President is pleased to appoint Shri P. S. Ghosh, Section Officer of CSS as Under Secretary (Grade-I of CSS) in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (Department of Road Transport & Highways) on purely ad hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 w.e.f. 2.5.2005 (F.N.) until further orders.

2. The ad hoc appointment shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS. The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

Dr. R. K. AGRAWAL, Under Secy.

MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

New Delhi-3, the 05th May 2005

No. 1/4/04-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri Sheshpal Singh Krushnakumar Singh Hajari, Reporter in the Nagpur Municipal Corporation as Assistant Private Secretary to the Minister of Non-conventional Energy Sources, Shri Vilas Muttemwar, in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- w.e.f. the forenoon of 29.04.2005.

The appointment of Shri S. K. Hajari as Asstt. Private Secretary is temporary and co-terminus with the term of Minister (NES) or till his services are required by Minister (NES), whichever is earlier.

J. MAJUMDAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT)

New Delhi-110 003, the 10th May 2005

No. DOD/17/1/2005-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel and Training Order No. 21/13/2004-CS. I (B), dated the 23rd February, 2005 the President is pleased to appoint Shri M. L. Sharma, Grade I Officer of CSS to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS in the scale of pay Rs. 12000-375-16500/- on ad hoc basis w.e.f. the forenoon of 2nd March, 2005 and until further orders. The ad hoc appointment is subject to the following conditions.

- (i) The ad hoc appointment of Shri Sharma shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade of CSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

B. L. KUREEL, Under Secy.

New Delhi-110 003, the 13th May 2005

No. DOD/17/1/2005-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel and Training Order No. 21/40/2004-CS. I (B), dated the 15th February, 2005 the President is pleased to appoint Shri T. T. Ekka, Grade I (Under Secretary) of CSS in the scale of pay Rs. 10000-325-15200/- on ad hoc basis w.e.f. the forenoon of 21st February, 2005 and until further orders. The ad hoc appointment is subject to the following conditions.

- (i) The ad hoc appointment of Shri Ekka shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of CSS.

- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

M. L. SHARMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 03rd May 2005

No. A-38011/1/2005-IIS.—On attaining the age of Superannuation the following Senior Grade IIS Group A Officers retired from Government Service from the date mentioned against the name of each :—

Sl. No.	Name of the officer	Post held	Office	IRLA No.	Retirement date
1	2	3	4	5	6
	S/Sh.				
1.	S.R. Ojha,	News Editor,	NSD AIR New Delhi	8171	31.01.2005
2.	Rajendra Roy,	Editor	DPD New Delhi	8033	31.01.2005
3.	B.P. Rathod,	Information Officer	PIB, Ahmedabad	9879	31.01.2005
4.	U.C. Roy,	News Editor	NSD AIR Lucknow	—	31.01.2005
5.	R.G. Pujari,	Information Officer	PIB, Mumbai	—	31.01.2005
6.	G.S. Randhawa,	Special Correspondent	AIR Kabul	8080	28.02.2005
7.	D.G. Mahapatra,	PRO	DG CRPF New Delhi	4645	28.02.2005
8.	H.K. Verma,	Information Officer	PIB, New Delhi	8150	28.02.2005
9.	Surinder Kumar,	News Editor	NSD AIR New Delhi	—	28.02.2005
10.	J. Mahanta,	Editor	DPD New Delhi	8074	31.03.2005
11.	Dalip Singh,	Editor	—do—	8558	31.03.2005
12.	P. Rajendran,	PRO,	DPR (Defence) Thiruvananthapuram	8117	31.03.2005

2. The officers relinquished the charge of the post held by them in their respective offices on the same date indicated against their names.

V.K. SEKHRI, Under Secy.

New Delhi, the 11th May 2005

No. 1/9/2000-MUC.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 23.04.2002, the President

is pleased to extend the period of deputation in respect of Shri R.B. Dixit, Senior Accounts Officer, Office of the Controller General of Accounts as Financial Adviser and Chief Accounts Officer in Directorate of Advertising and Visual Publicity for a further period of one year beyond three years (i.e. for the fourth year) with effect from 21.03.2005 (AN) to 20.03.2006 or until further orders whichever is earlier.

S.V. KRISHNAN, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 10th May 2005

No. K-11011/22/2004-DDIA.—The President is pleased to appoint Shri V.K. Sadhu, an officer of Central Secretariat Service (CSS:76) as Principal Commissioner in the Delhi Development Authority (Joint Secretary Level), in the pay scale of Rs. 18400-22400/-, for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

PARMJIT SINGH, Desk Officer